

# VEE KAY INDUSTRIES

DOC NO.-F/HRM/06  
REV NO-00  
REV DATE:-

## TRAINING ATTENDANCE SHEET

Training Subject

हैंगर लोडिंग करते समय खास ध्यान देना

Date: 23/06/23

Trainer

Training Time

Duration

Arun K. Singh.

1:30 PM to 2:00 PM

30 min

S.No.	NAME OF TRAINEE	DESIGNATION	SIGNATURE	REMARKS
1	शशिभंत	लोडिंग ऑपरेटर	शशिभंत शशिभंत	
2	राम शिखर	लोडिंग ऑपरेटर	राम शिखर	
3	सुनील	लोडिंग ऑपरेटर	सुनील	
4	प्रदीप दास	लोडिंग ऑपरेटर	प्रदीप दास	
5	शेषराम	लोडिंग ऑपरेटर	शेषराम	

### TRAINING POINTS

- हैंगर लोडिंग करते समय खास ध्यान देना स्टैंड कि स्पिंग पर ज्यादा बिकेल नहीं होना चाहिए
- कोई भी हैंगर का स्पिंग लुज नहीं हो, अगर लुज है तो उसे लॉक कर और फिट पाते लगाएँ।
- हैंगर में पार्ट लगाने के बाद चेक करें कि कोई पार्ट लुज तो नहीं है।
- हैंगर के स्पिंग पर अगर लुज, या लुटा हुआ है तो उसे पोलेस खोलकर करेक्ट रिपैर के लिए भेजें।
- हैंगर का हक लाफ होना चाहिए।

Trainer's Sign: 

HR Head's Sign: 